

## मेरा गाँव मेरा गौरव कार्यक्रम के अंतर्गत मोदीपुरम परिसर द्वारा किसान प्रशिक्षण की रिपोर्ट

केन्द्रीय आलू अनुसन्धान संस्थान परिसर मोदीपुरम द्वारा गाँव महमूदपुर (हापुड़) व मोदीपुरम परिसर पर 'मेरा गाँव मेरा गौरव' पारियोजना के अंतर्गत आलू फ़सल पर आधारित एक दिवसीय किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम क्रमशः दिनांक 20-03-2017 व 22-03-2017 को आयोजित किये गए. इन कार्यक्रमों में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपद मेरठ, हापुड़, मुजफ्फरनगर, फतेहपुर व रंगारेड्डी (तेलंगाना) के लगभग 270 आलू कृषकों ने भाग लिया. इस गोष्ठी में वैज्ञानिकों द्वारा दी गयी आलू व अन्य फसलों की तकनीकी जानकारी इन कृषकों को दी गयी. कार्यक्रम का उद्घाटन परिसर के संयुक्त निदेशक डा. मनोज कुमार द्वारा ने किया तथा किसानों को संबोधित किया. कार्यक्रम के सम्बन्धक डा. अनुज भटनागर, प्रधान वैज्ञानिक ने कार्यक्रम की रूपरेखा पर प्रकाश डाला व कार्यक्रम का संचालन किया. परिसर के वैज्ञानिकों डा. देवेन्द्र कुमार, डा. कमलेश मालिक, डा. सतीश कुमार लूथरा, डा. नेम सिंह, डा. संजय रावल, डा. बबिता तथा डा. मेही लाल द्वारा आलू के भिन्न भिन्न विषयों पर व्याख्यान दिया गया. इस कार्यक्रम में किसानों को आलू की किस्मों, मिट्टी परिक्षण, आलू उत्पादन, आलू फसल में रोगों व कीटों से रोगथाम, बीज उत्पादन एवं भंडारण पर तकनीकी जानकारी दी गयी. सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्राद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ से आमंत्रित प्रोफ़ेसर डा. डी. वी. सिंह व डा. अमित कुमार ने मछली तथा पशु पालन पर जानकारी दी. भारतीय स्टेट बैंक पल्हेरा (मेरठ) के शाखा प्रबंधक श्री चोपड़ा द्वारा किसानों से सम्बंधित फसल बीमा व ऋण योजना सम्बन्धी जानकारी दी. कार्यक्रम के पंजीकरण व अन्य प्रबंधन में डा. अशोक कुमार चौहान तथा श्री उदयवीर सिंह के द्वारा उल्लेखनीय योगदान दिया गया. इस कार्यक्रम में सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्राद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ व चौ. चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के 20 छात्रों ने भी भाग लिया. कार्यक्रम का समापन कृषकों की प्रश्नोत्तरी गोष्ठी के पश्चात् संपन्न हुआ.



